



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 1981/वैशाख 1, 1903

No. 168]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 1981/VAISAKHA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

( रसायन और उर्वरक विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1981

का० आ० 306(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण)  
आदेश 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 974 (अ),  
तारीख 16 दिसम्बर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की मारणी में, क्रम सं० 1 और उससे संबंधित प्रवि-  
ष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं०	शुद्ध औषधि का नाम	अधिकतम विक्रय कीमत (₹०/ किलोग्राम)
"1.	फेनैसिटिन	88.02"

[सं० 8(35)/79-औषधि-2]

Ministry of Petroleum and Chemicals Fertilizers

(Department of Chemicals and Fertilizers)

ORDERS

New Delhi, the 21st April, 1981

S.O. 306 (E) :—In exercise of the powers conferred by  
subparagraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control)  
Order, 1979, the Central Government hereby makes the following  
amendments in the order of the Government of India in the  
Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department  
of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 974(E) dated the 16th  
December, 1980 namely :—

In the said Order in the Table, for Sl. No. 1 and the entries  
relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sl. Name of the bulk drug No.	Maximum sale price (Rs./kilogram)
----------------------------------	--------------------------------------

"1. Phenacetin	88.02"
----------------	--------

[No. 8(35)/79 Drug-II]

का० आ० 307(अ) :—केन्द्रीय सरकार, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाबद्ध सारणी में के स्तंभ 3 में यथा विनिर्दिष्ट कीमत को, उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त सारणी के स्तंभ 2 की नमूदानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्वदेश विनिर्मित प्रचुज ओषधियों से प्रत्येक कर विक्रय किया जाएगा।

#### सारणी

क्रम सं०	ओषधि का नाम	अधिकतम विक्रय कीमत रु० प्रति किलोग्राम
1	2	3
1	मार्फीन बी० पी०	3407.00
2	मार्फीन हाइड्रोक्लोराइड	3403.00
3	मार्फीन सल्फेट	3391.00
4	कोडीन बी० पी०	5811.00
5	कोडीन फास्फेट	4710.00
6	कोडीन सल्फेट	4709.00
7	मार्फोटीन	673.00

[स० 8(88)/79-ओषधि-2]

S.O. 307 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 the Central Government hereby fixes the price as specified in column 3 of the Table hereto annexed as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table shall be sold.

TABLE

Sl. No.	Name of the drug	Maximum sale price Rs. per kg.
1	2	3
1.	Morphine B.P.	3407.00
2.	Morphine Hydrochloride	3403.00
3.	Morphine Sulphate	3391.00
4.	Codeine B.P.	5811.00
5.	Codeine Phosphate	4710.00
6.	Codeine Sulphate	4709.00
7.	Narcotine	673.00

[No. 8 (88)/79-Drug-II]

#### विक्रय आयुक्त (ओषधि) का कार्यालय

का० आ० 308(अ) :—केन्द्रीय सरकार, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की अधियुक्तता से का० आ० 974 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 1980 के आदेश में निम्नलिखित का संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त आदेश में उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 4 से 10 तक का और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[स० 8(88)/79-ओषधि-2]

#### Office of the Development Commissioner (Drugs)

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India, in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 974(E) dated the 16th December, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said order, serial number 4 to 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 8(88)/79-Drug-II]

का० आ० 309(अ) :—केन्द्रीय सरकार, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रति किलोग्राम 8410.70 रु० को ऐसी अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है, जिस पर स्वदेश विनिर्मित एमिटाइन हाइड्रोक्लोराइड का विक्रय किया जाएगा।

[स० 8(106)/80-ओषधि-2]

S.O. 309(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Price Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 8410.70 per kg. as the maximum sale price at which Emitine Hydrochloride manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(106)/80-Drug-II]

का० आ० 310(अ) :—केन्द्रीय सरकार, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 195(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त आदेश में उपाबद्ध सारणी में—

“प्रवर्ग 1 विनिर्दिष्टियां” शीर्ष के नीचे क्रम सं० 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[स० 9(1)/81-ओषधि-II]

S.O. 310(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 195(E) dated the 2nd April, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said Order :—

Under the heading 'Category I formulations' Sl. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 9(1)/81-Drug. III]

का० आ० 311(अ) :—केन्द्रीय सरकार, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तंभ 2 की नमूदानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट की, उसके स्तंभ 3 और 4 की नमूदानी प्रविष्टियों में क्रमशः विनिर्दिष्ट शक्ति और एक गांज यन्त्र पुनरीक्षण सारणी कीमत के रूप में, उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर का यदि कोई है, छोड़कर, नियत करती है।

सारणी				
क्र० सं०	विलिपित का नाम	शक्ति	पैक माइज	अग्रणी कीमत रु०
1	2	3	4	5
1	डी डी एस टिकिया	5 मि०ग्रा० प्रति टिकिया	1000 की बोतल	7.29
		10 मि०ग्रा० प्रति टिकिया	1000 की बोतल	9.17
		25 मि०ग्रा० प्रति टिकिया	1000 की बोतल	14.63
		50 मि०ग्रा० प्रति टिकिया	1000 की बोतल	24.14
		100 मि०ग्रा० प्रति टिकिया	1000 की बोतल	46.48

[सं० 9(1)/81-प्रोपधि-II]

आर० एन० दास, उपायुक्त

S.O. 311 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices specified in column 5 of the Table hereto annexed as the revised leader prices exclusive of excise duty and local taxes if any, of the Formulation specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :—

TABLE

S1. Name of the No. formulation	Strength	Pack size	Leader price Rs.
1	2	3	4
1. DDS Tablets	5 mg per tab.	1000's bottle	7.29
	10 mg per tab.	1000's bottle	9.17
	25 mg per tab.	1000's bottle	14.63
	50 mg per tab.	1000's bottle	24.14
	100 mg per tab.	1000's bottle	46.48

[No. 9(1)/81-Drug-II]

R. N. DAS, Dy. Secy.

